



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 586 राँची, सोमवार,

1 पौष, 1937 (श०)

21 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2015

संख्या-15/सा०अव०-03-03/2015 का०-10300-- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-20-25-56-पर्व-1, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट, 1881) 26-1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, वर्ष 2016 में संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर राजपत्रित अवकाश घोषित करते हैं ।

2. वर्ष 2016 में संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित तिथियों को कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बन्द रहेंगे ।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-41/2/98 बी.ओ.॥ दिनांक 9अगस्त, 2002 एवं पत्रांक-1/22/2012-बी.ओ.॥ दिनांक 9 जनवरी, 2013 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट, 1881) - 26 - 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल वर्ष 2015 में सम्पूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक अवकाश घोषित करते हैं ।

टिप्पणी:- 1.चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2. राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी ।

3. एतद् द्वारा प्रतिबंधित अवकाश की व्यवस्था समाप्त की जाती है ।

इसके स्थान पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों, जहाँ पाँचदिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है, के कर्मियों के लिये अनुमान्य आकस्मिक अवकाश की संख्या 12 से बढ़ाकर 14 दिन और अन्य ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों, जहाँ छह दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है, के कर्मियों के लिये आकस्मिक अवकाशों की संख्या 16 दिन से बढ़ाकर 18 दिन की जाती है ।

4. अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक लेखा वार्षिक बन्दी सरकारी अधिष्ठानों/कार्यालयों पर लागू नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भूषण पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

अनुसूची-1

वर्ष 2016 के लिए झारखण्ड राज्य में एन०आई०एक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रिगेरियन कैलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत 1937/1938)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ - 06	मंगलवार	1
2.	महाशिवरात्रि	07 मार्च	फाल्गुन - 17	सोमवार	1
3.	होलिका दहन	22 मार्च	चैत्र - 02	मंगलवार	1
4.	होली	24 मार्च	चैत्र - 04	गुरुवार	1
5.	गुड फ्राइडे	25 मार्च	चैत्र - 05	शुक्रवार	1
6.	अम्बेडकर जयंती	14 अप्रील	चैत्र - 25	गुरुवार	1
7.	रामनवमी	15 अप्रील	चैत्र - 26	शुक्रवार	1
8.	महावीर जयंती	19 अप्रील	चैत्र - 30	मंगलवार	1
9.	बुद्ध पूर्णिमा	21 मई	वैशाख - 31	शनिवार	1
10.	ईद-उल-फितर	06 जुलाई	आषाढ - 15	बुधवार	1
11.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण - 24	सोमवार	1
12.	जन्माष्टमी	25 अगस्त	भाद्र - 03	गुरुवार	1
13.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)/करमा पूजा	12 सितम्बर	भाद्र - 21	सोमवार	1
14.	महानवमी	10 अक्टूबर	आश्विन - 18	सोमवार	1
15.	विजयादशमी	11 अक्टूबर	आश्विन - 19	मंगलवार	1
16.	मुहर्रम	12 अक्टूबर	आश्विन - 20	बुधवार	1
17.	गुरुनानक जयंती	14 नवम्बर	कार्तिक - 23	सोमवार	1
18.	मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस)	13 दिसम्बर	अग्रहायण - 22	मंगलवार	1
	कुल दिन				18

टिप्पणी -सरहुल-10 अप्रैल, महात्मा गाँधी का जन्मदिवस-02 अक्टूबर, महाअष्टमी-09 अक्टूबर, पावली-30 अक्टूबर, सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अर्ध्य)-06 नवम्बर एवं क्रिसमस-25 दिसम्बर को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण उक्त तिथियों को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथियों को अवकाश रहेगा ।

अनुसूची-

वर्ष 2016 के लिए झारखण्ड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1937/1938)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	मकर संक्रांति	14 जनवरी	पौष - 24	गुरुवार	1
2.	गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती	16 जनवरी	पौष - 26	शनिवार	1
3.	वसंत पंचमी	12 फरवरी	माघ - 23	शुक्रवार	1
4.	संत रविदास जयन्ती	22 फरवरी	फाल्गुन - 03	सोमवार	1
5.	हुल दिवस	30 जुन	आषाढ - 09	गुरुवार	1
6.	गणेश चतुर्थी	05 सितम्बर	भाद्र - 14	सोमवार	1
7.	शारदीय नवरात्र का आरम्भ/कलश स्थापन	01अक्टूबर	आश्विन - 09	शनिवार	1
8.	दशहरा(महासप्तमी)	08अक्टूबर	आश्विन - 16	शनिवार	1
9.	भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा	01 नवम्बर	कार्तिक - 10	मंगलवार	1
10.	छठ (प्रातः अर्ध्य)	07 नवम्बर	कार्तिक - 16	सोमवार	1
11.	भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती/राज्य स्थापना दिवस	15 नवम्बर	कार्तिक - 24	मंगलवार	1
	कुल दिन				11

टिप्पणी:- रथ यात्रा दिनांक-06 जुलाई (बुधवार) को ईद-उल-फितर के अवसर पर एन०आई०एक्ट के तहत छुट्टी घोषित रहने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है ।

अनुसूची-3

वर्ष 2016 में एन०आई०एक्ट, 1881 के तहत बैंक लेखा बन्दी अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1937/1938)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	बैंक लेखा की वार्षिक बन्दी	01 अप्रैल	चैत्र - 12	शुक्रवार	1
	कुल दिन				01

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 586—50 ।